



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2007/फाल्गुन 3, 1928

No. 181]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2007/PHALGUNA 3, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय-IV)

अधिसूचना

चेन्नै, 18 जनवरी, 2007

सं. 01/2007-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 263(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 33/94-सीमा शुल्क (एन. टी.) दिनांक 1-7-1994 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा ओरगडम, श्रीपेरुंबुदूर तालुक में स्थित, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु राज्य को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत भांडागार केन्द्र घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. VIII/48/6/2007-सी.शु. नीति]

बी. रविचन्द्रन, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL EXCISE COMMISSIONERATE-IV)

NOTIFICATION

Chennai, the 18th January, 2007

No. 01/2007-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred on me under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with Notification No. 33/94-Customs (NT) dated 1-7-1994 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi, I hereby declare Orgadam, situated at Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, in the State of Tamil Nadu to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962) for the purpose of setting up of a 100% Export Oriented Undertaking.

[F. C. No. VIII/48/6/2007-Cus. Pol.]

B. RAVICHANDRAN, Commissioner